

इसे वेबसाईट [www.govt\\_pressmp.nic.in](http://www.govt_pressmp.nic.in)  
से भी डाउन लोड किया जा सकता है।



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 340]

भोपाल, शनिवार, दिनांक 22 अगस्त 2015—श्रावण 31, शक 1937

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग

“निर्वाचन भवन”

58, अरेरा हिल्स, भोपाल —462 011

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 22 अगस्त 2015

क्र. एफ-65-01-2015-तीन-नपा-666.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य में नगरपालिका परिषद् हरदा, जिला हरदा एवं नगर परिषद् भैंसदेही, जिला बैतूल के माह अगस्त 2015 में कराये गये अध्यक्ष पद के उपनिर्वाचन में निम्नलिखित व्यक्ति निर्वाचित हुए हैं:—

क्र.	नगरपालिका परिषद् एवं नगर परिषद् का नाम, जिले का नाम	पद अर्थात् अध्यक्ष/ पार्षद	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद हेतु अंकों में शब्दों में		निर्वाचित व्यक्ति का नाम	दल से सम्बद्धता
			(4)	(5)		
(1)	(2)	(3)			(6)	(7)
1	नगरपालिका परिषद्, हरदा, जिला हरदा.	अध्यक्ष	—	—	श्रीमती साधना जैन	भारतीय जनता पार्टी
2	नगर परिषद्, भैंसदेही, जिला बैतूल.	अध्यक्ष	—	—	अनिल सिंह ठाकुर पिता श्री शीतल सिंह ठाकुर.	भारतीय जनता पार्टी

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,

हस्ता./-

( दीपक सक्सेना )

उपसचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.